

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक ०३ ^{जुलाई} -दिसम्बर, 2017

विषय- राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के संगठनात्मक ढांचे में प्रोग्रामर का 01 अतिरिक्त पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-291/नि0अनु0/02-48/नि0अनु0/ढांचा/02, दिनांक 10 अक्टूबर, 2002, कार्यालय ज्ञाप संख्या-392/48(2002)-XXVI/रा0यो0आ0/2005, दिनांक 03 जून, 2005 के अनुक्रम में एवं राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-932 /1-42/रा0यो0आ0/2015, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजना आयोग के संगठनात्मक ढांचे में प्रोग्रामर का 01 अस्थाई अतिरिक्त पद वेतनमान ₹ 53100-167800 (वेतन मैट्रिक्स लेवल-9) में दिनांक 28.02.2018 तक बशर्ते उक्त पद इस अवधि से पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, तक सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्त पद पर नियुक्ति सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार की जायेगी।
- 3- उक्त पद के सापेक्ष नियुक्त पदधारक को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
- 4- उक्त पद के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में प्रोग्रामर का 01 अस्थाई पद अभिवृद्धि के रूप में जाना जायेगा।
- 5- उक्त पद पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक अनुदान संख्या-7 के लेखाशीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-092- अन्य कार्यालय-03- नियोजन अधिष्ठान-01-वेतन की मद की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-696/xxvii(7)/2017, दिनांक 08.11.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- ०५ /XXVI/एक(11)/2004- तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. अपर सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अधिकारी, ईरला चैक, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(गोविन्द सिंह बिष्ट)
उप, सचिव